



प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

(पत्रांक-244/2021 दिनांक 04.09.2021)

***दिनांक- 04.09.2021 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-**

थाना-कसया-

गौतस्करी में संलिप्त 25000 रुपये का ईनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री सचिन्द्र पटेल के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री अयोध्या प्रसाद सिंह के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कसया श्री पीयूषकान्त राय के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.09.2021 को विगत रात्रि में अपराधियों के पतारसी सुरागरसी के क्रम में थाना कसया क्षेत्रान्तर्गत में स्वाट टीम व थाना कसया पुलिस की संयुक्त टीम बैरिया चौराहे के पास एक सफेद रंग की बिना नम्बर की पिकअप वाहन से गोरखपुर की तरफ जा रही थी, पिकअप वाहन को पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा किया, परंतु वाहन तेज गति से गोरखपुर की तरफ भागने लगी। पुलिस टीम द्वारा उक्त वाहन का पीछा किया गया, आगे जाकर पिकअप वाहन हाइवे से बंदोली नहर वाले रास्ते से महुवाडी की तरफ भागने लगे उसी रास्ते पर हाइवे से करीब 200 मीटर जाने बाद पिकअप खड़ा कर पिकअप में से तीन लोग निकलकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने के नियत से फायर किए, जिससे पुलिस टीम के सदस्य थाना कसया पर नियुक्त आरक्षी लालजीत यादव घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा आत्मसुरक्षार्थ फायर किया गया जिसमें एक अभियुक्त 1.खुशीद शाह पुत्र मीर हसन निवासी जंगल हनुमान गंज शेख टोलिया थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर घायल हो गया तथा अन्य 2 अभियुक्त अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल हो गये। गिरफ्तार अभियुक्त को इलाज हेतु जिला अस्पताल रविन्द्रनगर भेजवाया गया है जहाँ उसका इलाज चल रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त खुशीद शाह थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर से वांछित 25000 हजार रुपये का ईनामिया अपराधी है व जनपद के अन्य थानों पर भी कई मुकदमे वान्टेड है उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 621/2021 धारा 307 भादवि व मु0अ0सं0 622/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत होकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.खुशीद शाह पुत्र मीर हसन निवासी जंगल हनुमान गंज शेख टोलिया थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर।

फरार वांछित अभियुक्तगण-

- 1.महफूज पुत्र अज्ञात निवासी जोलहा पट्टी, बसहिया बनवीरपुर, थाना पडरौना जनपद कुशीनगर।
अभियुक्त जनपद गोरखपुर से गोकसी के मामले में जेल जा चुका है
2. पप्पू पुत्र अज्ञात निवासी जोलहा पट्टी, बसहिया बनवीरपुर, थाना पडरौना जनपद कुशीनगर

विवरण बरामदगी-

- 1- तमंचा 315 बोर 01 अदद।
- 2 - खोखा 315 बोर 01 अदद।
- 3 - जिंदा कारतूस 315 बोर, 01 अदद।
- 4 - चाकू 01 अदद।
- 5 - 01 अदद पिकअप सफेद रंग, बिना नम्बर।

अभियुक्त खुशीद शाह का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 1113/15 धारा 41/411 थाना विशुनपुरा
2. मु0अ0सं0 1101/16 धारा 3/5ए/8 गोबध अधिनियम व 11 पशुकूरता अधिनियम थाना कोतवाली पडरौना।
3. मु0अ0सं0 0639/17 धारा 3/5ए/8 गोबध अधिनियम व 11 पशुकूरता अधिनियम थाना कोतवाली पडरौना।
4. मु0अ0सं0 528/19 धारा 60(63) आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली पडरौना।
- 5.मु0अ0सं0 82/20 धारा 307 आईपीसी, व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशुकूरता- अधिनियम थाना कुबेरस्थान से वांछित है।
6. मु0अ0सं0 24/20 धारा 34, 307, 326बी, 332, 336, 504, 506, आईपीसी व 3 सार्वजनिक क्षति निवारण अधिनियम थाना पिपराईच, जनपद गोरखपुर से वांछित है।
- 7.मु0अ0सं0 18/20 धारा 34, 420, 120बी, 506, 504, 323, 336, 333, 332, 326ए, 307 आईपीसी थाना पिपराईच, जनपद गोरखपुर से वांछित है।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.प्र0नि0 श्री अखिलेश कुमार सिंह थाना कसया कुशीनगर & टीम
2. उ0नि0 अमित शर्मा स्वाट टीम प्रभारी & टीम जनपद कुशीनगर

वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(02)

थाना कसया-

थाना कसया पुलिस द्वारा एक अभियुक्त वृजेश पुत्र शम्भू साकिन पिपरी बड़ी थाना कसया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अन्तर्गत मु0अ0सं0 616/2021 धारा 380,411 भादवि में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना पटहेरवा-

थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा एक अभियुक्त मनोहर पुत्र महेन्द्र साकिन भड़सरवा थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अन्तर्गत मु0अ0सं0 69/2021 धारा 363,366,376,504,506 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 16 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

1.मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-0, ई-चालान- 193 वाहन।

2.107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-22, व्यक्ति-58

3.34/290 भादवि में की गयी कार्यवाही-(14)

4.वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(02)

5.इनामिया की गिरफ्तारी(एक पशु तस्कर रुपये 25000 की इनामी) ।

6.जनपद में कुल गिरफ्तारी –(कुल-19)

मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर